

Rev

Chapter 3

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

- 1 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον: Τάδε λέγει ὁ
और -उस स्वर्गदूत-को -की -में सारदीस कलीसिया लिख: ये-बातें कहता-है वह-जो
[G2532](#) [G3588](#) [G0032](#) [G3588](#) [G1722](#) [G4554](#) [G1577](#) [G1125](#) [G3592](#) [G3004](#) [G3588](#)
- ἔχων τὰ ἑπτὰ Πνεύματα τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας. Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῆς, καὶ νεκρὸς εἶ.
रखता-है -वे सात आत्माओं-को -के परमेश्वर-के, और -उन सात तारों-को। मैं-जानता-हूँ
[G2192](#) [G3588](#) [G2033](#) [G4151](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2033](#) [G0792](#) [G1492](#)
- σοῦ τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῆς, καὶ νεκρὸς εἶ.
तेरे -वे काम, कि नाम तुझ-में-है कि तू-जीवित-है, और मृत तू-है।
[G4771](#) [G3588](#) [G2041](#) [G3754](#) [G3686](#) [G2192](#) [G3754](#) [G2198](#) [G2532](#) [G3498](#) [G1510](#)

“सरदीस की कलीसिया के स्वर्गदूत को इस प्रकार लिख: “ऐसा वह कहता है जिसके पास परमेश्वर की सात आत्माएँ तथा सात तारे हैं, “मैं तुम्हारे कर्मों को जानता हूँ, लोगों का कहना है कि तुम जीवित हो किन्तु वास्तव में तुम मरे हुए हो।

- 2 γίνου γρηγορῶν, καὶ στήρισον τὰ λοιπὰ, ἃ ἔμελλον ἀποθανεῖν; οὐ
हो जागता-हुआ, और मज़बूत-कर -उन शेष-को, जो होनेवाले-थे मरने; नहीं
[G1096](#) [G1127](#) [G2532](#) [G4741](#) [G3588](#) [G3062](#) [G3739](#) [G3195](#) [G0599](#) [G3756](#)
- γὰρ εὕρηκά σου τὰ ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μου.
क्योंकि मैंने-नहीं-पाया तेरे -वे काम पूरे-किए-हुए सामने -उस परमेश्वर मेरे।
[G1063](#) [G2147](#) [G4771](#) [G3588](#) [G2041](#) [G4137](#) [G1799](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1473](#)

सावधान रह! तथा जो कुछ शेष है, इससे पहले कि वह पूरी तरह नष्ट हो जाए, उसे सुदृढ़ बना क्योंकि अपने परमेश्वर की निगाह में मैंने तेरे कर्मों को उत्तम नहीं पाया है।

- 3 μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας -- καὶ τήρει καὶ μετανόησον.
स्मरण-कर इसलिए कैसे तूने-पाया और सुना- और मान और मन-फिरा।
[G3421](#) [G3767](#) [G4459](#) [G2983](#) [G2532](#) [G0191](#) [G2532](#) [G5083](#) [G2532](#) [G3340](#)
- ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἦξω ὡς κλέπτῃς, καὶ οὐ μὴ γνῶς
यदि इसलिए नहीं तू-जागेगा, मैं-आऊँगा जैसे चोर, और नहीं कदापि तू-जानेगा
[G1437](#) [G3767](#) [G3361](#) [G1127](#) [G2240](#) [G5613](#) [G2812](#) [G2532](#) [G3756](#) [G3361](#) [G1097](#)
- ποῖαν ὥραν ἦξω ἐπὶ σέ.
किस घड़ी मैं-आऊँगा -पर तुझ।
[G4169](#) [G5610](#) [G2240](#) [G1909](#) [G4771](#)

सो जिस उपदेश को तूने सुना है और प्राप्त किया है, उसे याद कर। उसी पर चल और मनफिराव कर। यदि तू जागा नहीं तो अचानक चोर के समान मैं चला आऊँगा। मैं तुझे कब अचरज में डाल दूँ, तुझे पता भी नहीं चल पाएगा।

- 4 ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν, ἃ οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια
परन्तु तुझ-में-हैं थोड़े नाम -में सारदीस, जिन्होंने नहीं अशुद्ध-किए -वे वस्त्र
[G0235](#) [G2192](#) [G3641](#) [G3686](#) [G1722](#) [G4554](#) [G3739](#) [G3756](#) [G3435](#) [G3588](#) [G2440](#)
- αὐτῶν, καὶ περιπατήσουσιν μετ' ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί εἰσιν.
अपने, और वे-चलेंगे -के-साथ मुझ -में श्वेतों-में, क्योंकि योग्य वे-हैं।
[G0846](#) [G2532](#) [G4043](#) [G3326](#) [G1473](#) [G1722](#) [G3022](#) [G3754](#) [G0514](#) [G1510](#)

“कुछ भी हो सरदीस में तेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने को अशुद्ध नहीं किया है। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए मेरे साथ-साथ घूमेंगे क्योंकि वे सुयोग्य हैं।

5 Ὁ νικῶν, οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς; καὶ οὐ μὴ
 जो जयवन्त-होगा, इसी-प्रकार पहिनाया-जाएगा -में वस्त्रों श्वेत; और नहीं कदापि
[G3588](#) [G3528](#) [G3779](#) [G4016](#) [G1722](#) [G2440](#) [G3022](#) [G2532](#) [G3756](#) [G3361](#)

ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω
 मिटाऊँगा -वह नाम उसका -से -उस पुस्तक -उस जीवन-की, और मैं-अंगीकार-करूँगा
[G1813](#) [G3588](#) [G3686](#) [G0846](#) [G1537](#) [G3588](#) [G0976](#) [G3588](#) [G2222](#) [G2532](#) [G3670](#)

τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ Πατρὸς μου, καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων
 -वह नाम उसका सामने -उस पिता मेरे, और सामने -उन स्वर्गदूतों
[G3588](#) [G3686](#) [G0846](#) [G1799](#) [G3588](#) [G3962](#) [G1473](#) [G2532](#) [G1799](#) [G3588](#) [G0032](#)

αὐτοῦ.
 उसके।
[G0846](#)

जो विजयी होगा वह इसी प्रकार श्वेत वस्त्र धारण करेगा। मैं जीवन की पुस्तक से उसका नाम नहीं मिटाऊँगा, बल्कि मैं तो उसके नाम को अपने परम पिता और उसके स्वर्गदूतों के सम्मुख मान्यता प्रदान करूँगा।

6 Ὁ ἔχων οὖς, ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
 जिसके हो कान, वह-सुने क्या -वह आत्मा कहता-है -उन कलीसियाओं-को।
[G3588](#) [G2192](#) [G3775](#) [G0191](#) [G5101](#) [G3588](#) [G4151](#) [G3004](#) [G3588](#) [G1577](#)

जिसके पास कान है, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रही है।

7 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον: Τάδε λέγει
 और -उस स्वर्गदूत-को -की -में फिलादेलफिया कलीसिया लिख: ये-बातें कहता-है
[G2532](#) [G3588](#) [G0032](#) [G3588](#) [G1722](#) [G5359](#) [G1577](#) [G1125](#) [G3592](#) [G3004](#)

ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός; ὁ ἔχων τὴν κλεῖν Δαυίδ; ὁ ἀνοίγων, καὶ
 वह पवित्र, वह सच्चा; वह-जो रखता-है -वह कुंजी दाऊद-की; वह-जो खोलता-है, और
[G3588](#) [G0040](#) [G3588](#) [G0228](#) [G3588](#) [G2192](#) [G3588](#) [G2807](#) [G1138](#) [G3588](#) [G0455](#) [G2532](#)

οὐδεὶς κλείσει; καὶ κλείων, καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει.
 कोई-नहीं बन्द-करेगा; और बन्द-करनेवाला, और कोई-नहीं खोलता।
[G3762](#) [G2808](#) [G2532](#) [G2808](#) [G2532](#) [G3762](#) [G0455](#)

“फिलादेलफिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख: “वह जो पवित्र और सत्य है तथा जिसके पास दाऊद की कुंजी है जो ऐसा द्वार खोलता है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, तथा जो ऐसा द्वार बंद करता है, जिसे कोई खोल नहीं सकता; इस प्रकार कहता है।

8 Οἶδά σου τὰ ἔργα. ἰδοὺ, δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεωγμένην, ἣν
 मैं-जानता-हूँ तेरे -वे काम। देख, मैंने-दिया-है सामने तेरे द्वार खुला-हुआ, जिसे
[G1492](#) [G4771](#) [G3588](#) [G2041](#) [G3708](#) [G1325](#) [G1799](#) [G4771](#) [G2374](#) [G0455](#) [G3739](#)

οὐδεὶς δύναται κλείσαι αὐτήν, ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου
 कोई-नहीं सकता बन्द-करना उसे, क्योंकि थोड़ी तुझ-में-है शक्ति, और तूने-माना मेरा
[G3762](#) [G1410](#) [G2808](#) [G0846](#) [G3754](#) [G3398](#) [G2192](#) [G1411](#) [G2532](#) [G5083](#) [G1473](#)

τὸν λόγον, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου.
 -वह वचन, और नहीं तूने-इन्कार-किया -वह नाम मेरा।
[G3588](#) [G3056](#) [G2532](#) [G3756](#) [G0720](#) [G3588](#) [G3686](#) [G1473](#)

“मैं तुम्हारे कर्मों को जानता हूँ। देखो मैंने तुम्हारे सामने एक द्वार खोल दिया है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तेरी शक्ति थोड़ी सी है किन्तु तूने मेरे उपदेशों का पालन किया है तथा मेरे नाम को नकारा नहीं है।

9	ἰδοὺ, देख, G3708	διδῶ, मैं-देता-हूँ G1325	ἐκ -में-से G1537	τῆς -उस सभा G3588 G4864	συναγωγῆς -के G3588	τοῦ Σατανᾶ, शैतान-की, G4567	τῶν -उन G3588	λεγόντων कहनेवालों-को G3004	ἑαυτοὺς अपने-आप-को G1438		
	Ἰουδαίους, यहूदी G2453	εἶναι, होना, G1510	καὶ, और G2532	οὐκ नहीं G3756	εἰσὶν, हैं, G1510	ἀλλὰ, परन्तु G0235	ψεύδονται; झूठ-बोलते-हैं; G5574	ἰδοὺ, देख, G3708	ποιήσω, मैं-करूँगा G4160	αὐτοὺς, उन्हें, G0846	ἵνα, ताकि G2443
	ἤξουσιν, वे-आएँगे G2240	καὶ, और G2532	προσκυνήσουσιν, दण्डवत-करेंगे G4352	ἐνώπιον, सामने G1799	τῶν -उन G3588	ποδῶν, पाँवों G4228	σου, तेरे, G4771	καὶ, और G2532	γνώσιν, जानेंगे G1097	ὅτι, कि G3754	ἐγὼ, मैंने G1473
	ἠγάπησά, प्रेम-किया G0025	σε, तुझसे। G4771									

सुनो कुछ ऐसे हैं जो शैतान की मण्डली के हैं तथा जो यहूदी न होते हुए भी अपने को यहूदी कहते हैं, जो मात्र झूठे हैं, मैं उन्हें यहाँ आने को विवश करके तेरे चरणों तले झुका दूँगा तथा मैं उन्हें विवश करूँगा कि वे यह जानें कि तुम मेरे प्रिय हो।

10	ὅτι, क्योंकि G3754	ἐτήρησας, तूने-माना G5083	τὸν -वह G3588	λόγον, वचन G3056	τῆς -उस G3588	ὑπομονῆς, धीरज G5281	μου, मेरी, G1473	καὶ, मैं-भी G2504	σε, तुझे G4771	τηρήσω, बचाऊँगा G5083	ἐκ -से G1537
	τῆς -उस G3588	ῥάρας, घड़ी G5610	τοῦ -की G3588	πειρασμοῦ, परीक्षा G3986	τῆς -जो G3588	μελλούσης, होनेवाली-है G3195	ἔρχεσθαι, आना G2064	ἐπὶ, -पर G1909	τῆς -उस G3588	οἰκουμένης, संसार G3625	
	ὄλης, सारी, G3650	πειράσαι, परखने G3985	τοὺς -उन G3588	κατοικοῦντας, रहनेवालों-को G2730	ἐπὶ, -पर G1909	τῆς -उस G3588	γῆς, पृथ्वी। G1093				

क्योंकि तुमने धैर्यपूर्वक सहनशीलता के मेरे आदेश का पालन किया है। बदले में मैं भी उस परीक्षा की घड़ी से तुम्हारी रक्षा करूँगा जो इस धरती पर रहने वालों को परखने के लिए समूचे संसार पर बस आने ही वाली है।

11	ἔρχομαι, मैं-आता-हूँ G2064	ταχύ, शीघ्र। G5035	κράτει, थामे-रख G2902	ὁ, जो G3739	ἔχεις, तुम्हारे-पास-है, G2192	ἵνα, ताकि G2443	μηδεὶς, कोई-नहीं G3367	λάβῃ, ले-ले G2983	τὸν -वह G3588	στεφάνον, मुकुट G4735	σου, तेरा। G4771
----	--	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

“मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। जो कुछ तुम्हारे पास है, उस पर डटे रहो ताकि तुम्हारे विजय मुकुट को कोई तुमसे न ले ले।

12	Ὁ, जो G3588	νικῶν, जयवन्त-होगा, G3528	ποιήσω, मैं-बनाऊँगा G4160	αὐτὸν, उसे G0846	στῦλον, खम्भा G4769	ἐν, -में G1722	τῷ, -उस G3588	ναῶ, मन्दिर G3485	τοῦ, -के G3588	Θεοῦ, परमेश्वर G2316	μου, मेरे, G1473	καὶ, और G2532
	ἔξω, बाहर G1854	οὐ, नहीं G3756	μὴ, कदापि G3361	ἐξέλθῃ, वह-निकलेगा G1831	ἔτι; फिर; G2089	καὶ, और G2532	γράψω, मैं-लिखूँगा G1125	ἐπ’ -पर G1909	αὐτὸν, उस G0846	τὸ, -वह G3588	ὄνομα, नाम G3686	τοῦ, -के G3588
	Θεοῦ, परमेश्वर G2316	μου, मेरे, G1473	καὶ, और G2532	τὸ, -वह G3588	ὄνομα, नाम G3686	τῆς, -के G3588	πόλεως, नगर G4172	τοῦ, -के G3588	Θεοῦ, परमेश्वर G2316	μου, मेरे, G1473	τῆς, -की G3588	καινῆς, नयी G2537
	Ἱερουσαλήμ, यरूशलेम, G2419	ἣ, जो G3588	καταβαίνουσα, उतरती-है G2597	ἐκ, -से G1537	τοῦ, -उस G3588	οὐρανοῦ, स्वर्ग G3772	ἀπὸ, -से G0575	τοῦ, -उस G3588	Θεοῦ, परमेश्वर G2316	μου, मेरे, G1473	καὶ, और G2532	
	τὸ, -वह G3588	ὄνομά, नाम G3686	μου, मेरा G1473	τὸ, -वह G3588	καινόν, नया। G2537							

जो विजयी होगा उसे मैं अपने परमेश्वर के मन्दिर का स्तम्भ बनाऊँगा। फिर कभी वह इस मन्दिर से बाहर नहीं जाएगा। तथा मैं अपने परमेश्वर का और अपने परमेश्वर की नगरी का नए यरूशलेम का नाम उस पर लिखूँगा, जो मेरे परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से नीचे उतरने वाली है। उस पर मैं अपना नया नाम भी लिखूँगा।

13 Ὁ ἔχων οὖς, ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
जिसके ही कान, वह-सुने क्या -वह आत्मा कहता-है -उन कलीसियाओं-को।
[G3588](#) [G2192](#) [G3775](#) [G0191](#) [G5101](#) [G3588](#) [G4151](#) [G3004](#) [G3588](#) [G1577](#)

| जो सुन सकता है, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रही है?

14 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον: Τάδε λέγει ὁ
और -उस स्वर्गदूत-को -की -में लाओदीकिया कलीसिया लिख: ये-बातें कहता-है वह
[G2532](#) [G3588](#) [G0032](#) [G3588](#) [G1722](#) [G2993](#) [G1577](#) [G1125](#) [G3592](#) [G3004](#) [G3588](#)

Ἀμὴν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ (ὁ) ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως
आमीन, वह साक्षी वह विश्वासयोग्य और (वह) सच्चा, -वह आदि -की सृष्टि
[G0281](#) [G3588](#) [G3144](#) [G3588](#) [G4103](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0228](#) [G3588](#) [G0746](#) [G3588](#) [G2937](#)

τοῦ Θεοῦ.
-के परमेश्वर-की।
[G3588](#) [G2316](#)

| "लाओदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख: "जो आमीन है, विश्वासपूर्ण है तथा सच्चा साक्षी है, जो परमेश्वर की सृष्टि का शासक है, इस प्रकार कहता है:

15 Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὐτε ψυχρὸς εἶ οὐτε ζεστός; ὄφελον
मैं-जानता-हूँ तेरे -वे काम, कि न-तो ठंडा तू-है न-तो गरम; काश
[G1492](#) [G4771](#) [G3588](#) [G2041](#) [G3754](#) [G3777](#) [G5593](#) [G1510](#) [G3777](#) [G2200](#) [G3785](#)

ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός.
ठंडा तू-होता या गरम।
[G5593](#) [G1510](#) [G2228](#) [G2200](#)

| "मैं तेरे कर्मों को जानता हूँ और यह भी कि न तो तू शीतल होता है और न गर्म।

16 οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ οὐτε ζεστός, οὐτε ψυχρὸς, μέλλω σε
इसी-कारण क्योंकि गुनगुना तू-है, और न-तो गरम, न-तो ठंडा, मैं-होनेवाला-हूँ तुझे
[G3779](#) [G3754](#) [G5513](#) [G1510](#) [G2532](#) [G3777](#) [G2200](#) [G3777](#) [G5593](#) [G3195](#) [G4771](#)

ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου.
उगलना -से -उस मुख मेरे।
[G1692](#) [G1537](#) [G3588](#) [G4750](#) [G1473](#)

| इसलिए क्योंकि तू गुनगुना है न गर्म और न ही शीतल, मैं तुझे अपने मुख से उगलने जा रहा हूँ।

17 ὅτι λέγεις, ὅτι Πλούσιός εἰμι, καὶ πεπλούτηκα, καὶ οὐδὲν
क्योंकि तू-कहता-है, कि धनवान मैं-हूँ, और मैंने-धन-इकट्ठा-किया-है, और किसी-चीज़-की
[G3754](#) [G3004](#) [G3754](#) [G4145](#) [G1510](#) [G2532](#) [G4147](#) [G2532](#) [G3762](#)

χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος, καὶ
आवश्यकता मुझे-है, और नहीं तू-जानता कि तू है -वह दुखी, और
[G5532](#) [G2192](#) [G2532](#) [G3756](#) [G1492](#) [G3754](#) [G4771](#) [G1510](#) [G3588](#) [G5005](#) [G2532](#)

ἐλεεινός, καὶ πτωχός, καὶ τυφλός, καὶ γυμνός.
दयनीय, और कंगाल, और अन्धा, और नंगा।
[G1652](#) [G2532](#) [G4434](#) [G2532](#) [G5185](#) [G2532](#) [G1131](#)

| तू कहता है, मैं धनी हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है किन्तु तुझे पता नहीं है कि तू अभागा है, दयनीय है, दीन है, अंधा है और नंगा है।

18 συμβουλευέω σοι ἀγοράσαι παρ' ἑμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς, ἵνα
 मैं-सलाह-देता-हूँ तुझे खरीदना -से मुझ सोना तपाया-हुआ -में-से आग, ताकि
[G4823](#) [G4771](#) [G0059](#) [G3844](#) [G1473](#) [G5553](#) [G4448](#) [G1537](#) [G4442](#) [G2443](#)

πλουτήσης; καὶ ἱμάτια λευκά, ἵνα περιβάλη, καὶ μὴ φανερωθῆ ἡ
 तू-धनवान-हो; और वस्त्र श्वेत, ताकि तू-पहिने, और नहीं प्रकट-हो -वह
[G4147](#) [G2532](#) [G2440](#) [G3022](#) [G2443](#) [G4016](#) [G2532](#) [G3361](#) [G5319](#) [G3588](#)

αἰσχύνῃ τῆς γυμνότητός σου; καὶ κολλούριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμούς σου,
 लज्जा -की नग्नता तेरी; और अंजन लगाना -वे आँखें तेरी,
[G0152](#) [G3588](#) [G1132](#) [G4771](#) [G2532](#) [G2854](#) [G1472](#) [G3588](#) [G3788](#) [G4771](#)

ἵνα βλέπῃς.
 ताकि तू-देखे।
[G2443](#) [G0991](#)

मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू मुझसे आग में तपाया हुआ सोना मोल ले ले ताकि तू सचमुच धनवान हो जाए। पहनने के लिए श्वेत वस्त्र भी मोल ले ले ताकि तेरी लज्जापूर्ण नग्नता का तमाशा न बने। अपने नेत्रों में अँजने के लिए तू अंजन भी ले ले ताकि तू देख पाए।

19 ἐγὼ ὄσους ἐὰν φιλῶ, ἐλέγχω καὶ παιδεύω; ζήλευε οὖν καὶ
 मैं जितनों-को यदि प्रेम-करता-हूँ, डाँटता-हूँ और अनुशासन-करता-हूँ; जोश-कर इसलिए और
[G1473](#) [G3745](#) [G1437](#) [G5368](#) [G1651](#) [G2532](#) [G3811](#) [G2206](#) [G3767](#) [G2532](#)

μετανόησον.
 मन-फिरा।
[G3340](#)

“उन सभी को जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ, मैं डाँटता हूँ और अनुशासित करता हूँ। तो फिर कठिन जतन और मनफिराव कर।

20 Ἴδου, ἔστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω; ἐὰν τις ἀκούσῃ τῆς
 देख, मैं-खड़ा-हूँ -पर -उस द्वार और खटखटाता-हूँ; यदि कोई सुने -उस
[G3708](#) [G2476](#) [G1909](#) [G3588](#) [G2374](#) [G2532](#) [G2925](#) [G1437](#) [G5100](#) [G0191](#) [G3588](#)

φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, «καὶ» εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτόν, καὶ
 आवाज़ मेरी और खोले -वह द्वार, (और) मैं-प्रवेश-करूँगा -के-पास उस, और
[G5456](#) [G1473](#) [G2532](#) [G0455](#) [G3588](#) [G2374](#) [G2532](#) [G1525](#) [G4314](#) [G0846](#) [G2532](#)

δειαπνήσω μετ' αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς μετ' ἑμοῦ.
 मैं-भोजन-करूँगा -के-साथ उसके, और वह -के-साथ मेरे।
[G1172](#) [G3326](#) [G0846](#) [G2532](#) [G0846](#) [G3326](#) [G1473](#)

सुन, मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुनता है और द्वार खोलता है तो मैं उसके घर में प्रवेश करूँगा तथा उसके साथ बैठकर खाना खाऊँगा और वह मेरे साथ बैठकर खाना खाएगा।

21 Ὁ νικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ' ἑμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς
 जो जयवन्त-होगा, दूँगा उसे बैठना -के-साथ मुझ -में -उस सिंहासन मेरे, जैसे
[G3588](#) [G3528](#) [G1325](#) [G0846](#) [G2523](#) [G3326](#) [G1473](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2362](#) [G1473](#) [G5613](#)

καθὼς ἐνίκησα, καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ Πατρὸς μου, ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ.
 मैंने-भी जय-पाया, और मैं-बैठा -के-साथ -उस पिता मेरे, -में -उस सिंहासन उसके।
[G2504](#) [G3528](#) [G2532](#) [G2523](#) [G3326](#) [G3588](#) [G3962](#) [G1473](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2362](#) [G0846](#)

“जो विजयी होगा मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का गौरव प्रदान करूँगा। ठीक वैसे ही जैसे मैं विजयी बनकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ।

22 Ὁ ἔχων οὖς, ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
 जिसके हो कान, वह-सुने क्या -वह आत्मा कहता-है -उन कलीसियाओं-को।
[G3588](#) [G2192](#) [G3775](#) [G0191](#) [G5101](#) [G3588](#) [G4151](#) [G3004](#) [G3588](#) [G1577](#)

जो सुन सकता है सुने, कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रही है।”